

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 573]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 30 अक्टूबर 2010—कार्तिक 8, शक 1932

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 2010

क्र. 17-एफ-1-35-2010-अट्टारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका मंदसौर जिला मंदसौर के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्रमांक (1)	वर्ग जिसके लिये आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	4-दशपुर वार्ड 35-संत रविदास वार्ड 40-विवेकानंद वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	10-प्रताप वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित कुल वार्ड	10	5-अभिनंदन वार्ड 6-शास्त्री वार्ड 7-राजीव गांधी वार्ड 8-यशोधर्मन वार्ड 9-संजय गांधी वार्ड 19-महात्मा गांधी वार्ड 25-अशोक वार्ड 27-डॉ. अम्बेडकर वार्ड 31-शिवाजी वार्ड 34-मौलाना आजाद वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	35-संत रविदास वार्ड 40-विवेकानंद वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	05	5-अभिनंदन वार्ड 6-शास्त्री वार्ड 25-अशोक वार्ड 31-शिवाजी वार्ड 34-मौलाना आजाद वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) के लिये आरक्षित वार्ड	13	3- गीता भवन वार्ड 11-झूलेलाल वार्ड 12-पटेल वार्ड 13-नेहरू वार्ड 15-मेवातीपुरा वार्ड 16-आर्य रक्षित वार्ड 21-गणपति वार्ड 24-सुभाष वार्ड 28-बुरहानी वार्ड 32-तिलक वार्ड 33-सुदामा वार्ड 37-नरसिंह वार्ड 38-रामद्वारा वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 2010

क्र. 17-एफ-1-35-2010-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका सीहोर, जिला सीहोर के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :-

क्रमांक (1)	वर्ग जिसके लिये आरक्षित किया गया है (2)	कुल वार्ड संख्या (3)	वार्ड क्रमांक जो आरक्षित हुए (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड	05	11-सन्त रविदास वार्ड 14-सरदार पटेल वार्ड 17-उमराव सिंह वार्ड 20-डॉ. अम्बेडकर वार्ड 22-बाल्मीकी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड	01	02-रानी दुर्गावती वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड	09	01-पटेल जीवनलाल राय वार्ड 04-गुरू गोविन्द सिंह वार्ड 05-डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 07-डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड 23-वीरसावरकर वार्ड 24-स्वामी विवेकानन्द वार्ड 32-मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वार्ड 33-रफी अहमद किदवई वार्ड 35-तिलक वार्ड
4	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड.	03	17-उमराव सिंह वार्ड 20-डॉ. अम्बेडकर वार्ड 22-बाल्मीकी वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड.	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्डों में अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड.	05	01-पटेल जीवनलाल राय वार्ड 07-डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड 23-वीरसावरकर वार्ड 33-रफी अहमद किदवई वार्ड 35-तिलक वार्ड
7	महिलाओं के लिये सरल क्रमांक-04, 05 एवं 06 के अलावा आरक्षित वार्ड	09	08-महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड 12-मोतीलाल नेहरू वार्ड 13-चन्द्रशेखर वार्ड 15-सुभाषचन्द्र बोस वार्ड 21-पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड 26-केप्टन अब्दुल हमीद वार्ड 28-महात्मा गाँधी वार्ड 29-महावीर वार्ड 34-सरदार भगतसिंह वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 2010

क्र. 17-एफ-1-35-2010-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर पंचायत, शाहगंज जिला सीहोर के लिये आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :-

क्रमांक (1)	वर्ग जिसके लिये आरक्षित किया गया है (2)	कुल वार्ड संख्या (3)	वार्ड क्रमांक जो आरक्षित हुए (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्ड	02	04-डॉ. अम्बेडकर वार्ड 05-महर्षि बाल्मिकी वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्ड	01	15-रानी दुर्गावती वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड	04	03-देवी अहिल्याबाई वार्ड 06-डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड 09-लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 14-पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
4	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड.	01	05-महर्षि बाल्मिकी वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड.	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्डों में अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड.	02	06-डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड 09-लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
7	महिलाओं के लिये सरल क्रमांक-04, 05 एवं 06 के अलावा आरक्षित वार्ड.	04	02-महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड 07-छत्रपति शिवाजी वार्ड 08-सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड 10-स्वामी विवेकानंद वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. मिश्रा, सचिव.